



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12—सितम्बर 18, 2015 (भाद्रपद 21, 1937)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12—SEPTEMBER 18, 2015 (BHADRA 21, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	851	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	857	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2235	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1167
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 387
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 817
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	851	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	857	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2235	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1167
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	387
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	817
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 5 अगस्त 2015

संकल्प

सं. 1/09/2014—हिन्दी—उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के दिनांक 23 अगस्त, 2012 के संकल्प संख्या 1/02/2010—हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है:—

संरचना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

डॉ. जितेन्द्र सिंह

अध्यक्ष

गैर—सरकारी सदस्य :—

लोक सभा से दो संसद सदस्य

1. श्री रामेश्वर तेली

सदस्य

2. श्री विष्णु पद राय

सदस्य

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

3. श्री भुवनेश्वर कालिता

सदस्य

4. श्री विश्वजीत डायमरी

सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

सदस्य

6. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी

सदस्य

केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्सवाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से प्रतिनिधि

7. श्री आर.के. द्विवेदी

सदस्य

बी-101, एम. एस. अपार्टमेंट

के. जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001.

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 10788-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली—110055 से प्रतिनिधि

8. डा. क्षीरदा कुमार शङ्कीया

सदस्य

मंत्री, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,

राष्ट्रभाषा प्रकल्प, सेवा मंदिर पथ,

रूपनगर, गुवाहाटी—781032 (असम) .

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नामित गैर—सरकारी सदस्य

9. डा. बलवंत शास्त्री

सदस्य

401 वसुंधरा एन्क्लेव,

बंगाली कंपाउन्ड, गोकुलधाम,

गोरेगांव पूर्व, मुम्बई (महाराष्ट्र).

दूरभाष: 022-40214917

10. श्री कुलेश्वर सोनकर सदस्य
102, कल्पतरू लेक व्यू अपार्टमेंट,
जे.पी. नगर, 7वां फेज,
बेंगलूर-560078
दूरभाष: 080-42351113
11. शास्त्री विपन खजूरिया सदस्य
मकान नं. 461, जुलाका मोहल्ला
जम्मू-180001
मो0 : 09419124127
12. डा. राजेन्द्र सिंह चंदेल सदस्य
विनिता विहार, स्कीम सं. 103, प्लॉट सं. 507-508,
चोइथराम मण्डी इन्दौर, मंत्रा मोटर्स इन्दौर के पीछे (म. प्र.)
फोन: 09827321584.

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

13. सुश्री सुजय डे सदस्य
मकान सं. 102/ए, त्रिवेणी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स
अदाबाड़ी तिनियाली पांडु, गुवाहाटी-781012
मो. 09716984621.
14. डॉ. दिग्विजय सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर सदस्य
लेन नं.3, गौतम नगर, सुसुवाही, वाराणसी-221005
मो. 09415369918.
15. डॉ. लक्ष्मी नारायण मित्तल सदस्य
मकान नं. एच-902, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
मुरैना-476001. मध्य प्रदेश
मो. 08989479298. सदस्य

सरकारी सदस्य :-

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

16. सचिव सदस्य
17. संयुक्त सचिव सदस्य
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
18. सचिव सदस्य
19. संयुक्त सचिव (वीबीपी) सदस्य
20. संयुक्त सचिव (जेकेएस) सदस्य
21. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार सदस्य
22. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार सदस्य
23. सभी निदेशक/उप सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय सदस्य
24. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग सदस्य
25. प्रबंध निदेशक, एन ई एच एच डी सी, गुवाहाटी सदस्य
26. प्रबंध निदेशक, नेरामेक, गुवाहाटी सदस्य
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेडफी, गुवाहाटी सदस्य
28. संयुक्त सचिव, (राजभाषा प्रभारी) सदस्य-सचिव

II. कार्य

समिति का कार्य केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे सलाह देना होगा ।

III. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल समिति की गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन सामान्यतः तीन वर्ष का होगा:

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने की स्थिति में इस समिति के सदस्य नहीं होंगे ।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर बने रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे ।
- (ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान को मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे ।

IV. मुख्यालय

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किंतु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है ।

V. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/04/2005—रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी, 2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है:—

- (क) समिति में नामित सांसदों को “संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954” के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा ।
- (ख) समिति ने अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/22034/04/86—रा.भा. (क-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भुगतान और लेखा कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ए.एम.सिंह
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi- 110011, the 5th August 2015

RESOLUTION

No. 1/09/2014-Hindi:—In supersession of the Ministry of Development of North Eastern Region's resolution No. No. 1/02/2010-Hindi dated 23rd August, 2012, the Government of India hereby, reconstitutes the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Development of North Eastern Region as under :—

COMPOSITION

Minister of Development of North Eastern Region Dr. Jitendra Singh Chairman

Non Official Members:—

Two MPs from Lok Sabha

- | | | |
|----|---------------------|--------|
| 1. | Sh. Rameswar Teli | Member |
| 2. | Sh. Bishnu Pada Ray | Member |

Two MPs from Rajya Sabha

- | | | |
|----|------------------------|--------|
| 3. | Sh. Bhubaneswar Kalita | Member |
| 4. | Sh. Biswajit Daimary | Member |

Two MPs from the committee of Parliament on Official Language

- | | | |
|----|--------------------------|--------|
| 5. | Sh. Shrirang Aappa Barne | Member |
| 6. | Sh. Satyavrat Chaturvedi | Member |

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi Parisad, XY-68
Sarojini Nagar, New Delhi

- | | | |
|----|--|--------|
| 7. | Shri R.K. Dwivedi
B-101, M.S. Apartment
K.G. Marg, New Delhi-110001. | Member |
|----|--|--------|

Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, 10788-89,
Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi-110055

- | | | |
|----|---|--------|
| 8. | Dr. Khirda Kumar Saikia,
Mantri, Asam Rashtrabhasha Prachar Samiti ,
Rashtrabhasha Prakalp, Sewa Mandir Path,
Roop Nagar, Guwahati-781032(Asam). | Member |
|----|---|--------|

Non-Official Members nominated by the Ministry of Development fo North-Eastern Region.

- | | | |
|-----|--|--------|
| 9. | Dr. Balwant Shastri,
401, Vasundhara Enclave,
Bangali Compound, Gokuldharm,
Goregaon East, Mumbai (Maharashtra),
Tel: 022-40214917 | Member |
| 10. | Shri Kuleshwar Sonkar,
102, Kalpatharu Lake View Apartments,
J.P. Nagar, 7th Phase,
Bangalore-560078
Tel: 080-42351113 | Member |
| 11. | Shasti Vipin Khajuria,
H.No. 461, Jullaka Mohalla,
Jammu-180001
Mob: 09419124127 | Member |

- | | | |
|-----|---|--------|
| 12. | Dr. Rajendra Singh Chandel,
Vinita Vihar, Scheme No, 103,
Plot No. 507-508, Near Choithram Mandi Indore,
Behind Mantra Motors Indore (M.P.).
Mob:09827321584. | Member |
|-----|---|--------|

Non-official member nominated by the Ministry of Home Affairs.

(Department of Official Language)

- | | | |
|-----|--|--------|
| 13. | Ms. Sujaya Dey
102/A, Triveni Housing Complex
Adabari Tiniali, Pandu, Guwahati
Pincode-781012
Mob.09716984621. | Member |
| 14. | Dr. Digvijaya Singh
Associate Professor, Lane No. 3
Gautam Nagar, Susuvahi
Varanasi-221005
Mob.09415369918. | Member |
| 15. | Dr. Laxmi Narayan Mittal
H.No. H-902, Old Housing Board Colony
Muraina-476001 (MP)
Mob.08989479298 | Member |

Official Members

Department of Official Language

- | | | |
|-----|-----------------|--------|
| 16. | Secretary | Member |
| 17. | Joint Secretary | Member |

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 18. | Secretary | Member |
| 19. | Joint Secretary (VBP) | Member |
| 20. | Joint Secretary (JKS) | Member |
| 21. | Joint Secretary and Financial Advisor | Member |
| 22. | Sr. Economic Advisor | Member |
| 23. | All Directors/Deputy Secretaries of M/o DONER | Member |
| 24. | Secretary, NEC, Shillong | |
| 25. | Managing Director, NEHHDC, Guwahati | Member |
| 26. | Managing Director, NERAMAC, Guwahati | Member |
| 27. | Chairman & Managing Director, NEDFi, Guwahati | Member |
| 28. | Joint Secretary(In-charge O.L.) | Member- Secretary |

II. Functions

The functions of the Samiti will be to render advice for the implementation of the policies laid down by Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language regarding the use of Hindi for official purpose in the Ministry of Development of North Eastern Region.

III. Tenure

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that:—

- (a) the Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament;
- (b) ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and
- (c) if any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

IV. Headquarter

The Headquarters of the Samiti will be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

V. Travelling and other allowances

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum No. II/20034/04/2005-OL(Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 6 Members of Parliament nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Department, so the provision regarding traveling/daily allowance is made more elaborate in the following manner:-

- (a) The members of Parliament nominated in the Samiti will be paid traveling and daily allowance as per the provisions in the "Members of Parliament(Salary, Allowance and Pension)Act, 1954", amendments issued from time to time and rules made thereunder.
- (b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language OM. No. II/20034/04/86-OL(A-2) dated 22nd January 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

It is Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of the Development of North Eastern Region, President's Secretariat, Prime-Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, all Ministries/Departments of Government of India, all state governments and union territory administrations, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Election Commission, Union Public Service Commission, Pay and Accounts Office, Ministry of DoNER and All Subordinate Offices/Autonomous bodies of the Ministry of DoNER.

It is also Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A.M.SINGH
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in